



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आश्विन 1931 (श0)
(सं0 पटना 521) पटना, सोमवार, 12 अक्टूबर 2009

सं0 I/ई¹-315/2006-2450
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

संकल्प

23 सितम्बर 2009

श्रीमती नीलिमा लाल, अवर निबंधक, बड़हरिया (सिवान) के द्वारा अवर निबंधक, लालगंज (वैशाली) के कर्तव्यकाल में निबंधित दस्तावेज सं0-507/2006, दस्तावेज सं0-5819 से 5828 वर्ष 2005 एवं दस्तावेज सं0-6038 से 6042 वर्ष 2005 के अनियमित निबंधन से हुई राजस्व क्षति विषयक परिवाद-पत्र की जाँच निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक तिरहुत प्रमण्डल मुजफ्फरपुर से करायी गयी। परिवाद पत्र, जाँच प्रतिवेदन, आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण तथा संचिका में उपलब्ध अन्य तथ्यों/अभिलेखों के पूर्ण समीक्षोपरान्त निष्कर्षतः शहरी क्षेत्र से संबंधित दस्तावेज सं0-507/2006, 6038/2005, 6039/2005, 6040/2005, 6041/2005 एवं 6042/2005 के निबंधन में विभागीय पत्रांक-3788, दिनांक 21 दिसम्बर 2000 के निर्देशों के उल्लंघन के कारण हुई रू0 72,040/- (बहत्तर हजार चालीस रुपये) की राजस्व क्षति के लिए श्रीमती नीलिमा लाल को दोषी पाए जाने के फलस्वरूप इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के अंतर्गत निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है :-

1. कुल राजस्व क्षति रू0 72,040 का 50% अर्थात् रू0 36,020 (छत्तीस हजार बीस रुपये) श्रीमती नीलिमा लाल, अवर निबंधक, बड़हरिया (सिवान) के वेतन से वसूली ।

साथ ही श्रीमती नीलिमा लाल को उक्त राजस्व क्षति के मदेनजर भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी दी जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्रीमती नीलिमा लाल, अवर निबंधक, बड़हरिया (सिवान) एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

आमिर सुबहानी,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 521-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>